



JUPITER WAGONS LIMITED

CIN: L28100MP1979PLC049375

September 21, 2024

To,

The Corporate Relationship Department,

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Security Code: 533272

The Manager, Listing Department,

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai - 400 051

NSE Symbol: JWL

Sub: - Newspaper Publication w.r.t. Tax Deduction at Source on Dividend Payout

Dear Sir/ Madam,

In pursuant to the provisions of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper publications made on 21st September, 2024 in Financial Express (English) and Raj Express (Hindi) notifying the shareholders about the withholding tax pertaining to payment of Interim Dividend to the Shareholders of the Company as approved by the Board of Directors at its meeting held on 18th September, 2024.

Copies of the aforesaid publication will also be available on the website of the Company at www.jupiterwagons.com.

This is for your intimation and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Jupiter Wagons Limited

Ritesh Kumar Singh
Company Secretary and Compliance Officer

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Fake Whatsapp Group account and Fake profiles impersonating Ms. Kruti Chheta, Fund Manager and Mr. Ravi Agarwal, Credit Analyst of Mirae Asset Investment Managers (India) **Private Limited**

It has come to the knowledge of Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited ("AMC") (Investment Manager to Mirae Asset Mutual Fund ("MAMF"), that fake/deceptive/fraudulent whatsapp groups have been created under the name m.Stock 196 Value Investment Portfolio and m.Stock by Mirae Asset wherein these groups are using the names of Ms. Kruti Chheta, Fund Manager and Mr. Ravi Agarwal, Credit Analyst with an intent to defraud unsuspecting members of the public and the fraudsters are using the numbers +91 94260 86585, +91 76025 10901 and +91 96621 36896 to create deception and operate fake whatsapp groups. Furthermore, fake identity cards bearing their names and photographs are also being circulated with the intent to open fake investment/trading accounts to deceive and cheat investors & public at large.

The AMC would like to inform the public in general that Mirae Asset Mutual Fund, Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited, its Holding & Group companies, their employees, Directors, officers, etc. and in particular Ms. Kruti Chheta and Mr. Ravi Agarwal are in no way associated with these fake whatsapp group(s) or the members/number(s) associated with these groups nor with such aforesaid activities and that they shall not be held liable for any losses/damages/liabilities whatsoever, arising out of these illicit activities. We further condemn this act of defrauding investors with an intention to cheat them and we advise our investors and public in general to not fall prey to these fake schemes and stay vigilant of such scams. We urge the investors to visit Mirae Asset Mutual Fund website https://www.miraeassetmf.co.in/ or contact Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited officials for verifying any information on products and services.

> MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD. (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

For and on behalf of the Board of Directors of

Place: Mumbai Date : September 20, 2024 **AUTHORISED SIGNATORY**

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Statutory Details: Sponsor: Mirae Asset Global Investments Company Limited, Trustee: Mirae Asset Trustee Company Private Limited. Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 2 1800 2090 777 (Toll free), ⊠ customercare@miraeasset.com @ www.miraeassetmf.co.in

> Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



JUPITER WAGONS LIMITED [CIN: L28100MP1979PLC049375]

legistered Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur-482001 (M.P.) India Tele No.: 0761-2611336 Email address: cs@jupiterwagons.com Website: www.jupiterwagons.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 18" September, 2024 has approved an interim dividend of Rs. 1/- (10%) per equity share of face value of Rs. 10/- each for FY 2024-25. The record date for the interim dividend is fixed as 7° October, 2024 for determining eligibility of Members to receive the dividend.

In pursuant to the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the provisions of the Finance Act, 2020, w.e.f. 1" April, 2020, the Company would be required to apply withholding tax/deduct taxes at source (TDS) at the prescribed rates at the time of payment of Interim Dividend to its shareholders as approved by the Board of Directors at its meeting held on 18th September, 2024.

No TDS shall be deducted on payment of Dividend to the resident individual members, if the amount of such dividend in aggregate paid or likely to be paid during the financial year 2024-25 does not exceed Rs. 5.000/-

The withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and as acceptable to the Company. Detailed information in this regard is available on the website of the Company at www.jupiterwagons.com.

(Rules) to be provided. On non-furnishing of the prescribed information/ documents as per Rule 37BC of the Rules, withholding tax of 20% (plus applicable surcharge and cess) may be applicable. Determination of withholding tax rate of the shareholder is subject to necessary verification by the Company as available with the RTA, in case share are held in physical form or depository participant in case share are held in dematerialized form as on 7" October, 2024 and other document available with the RTA/ Company.

In absence of PAN, specified information/ documents as per Rule 37BC of Income Tax Rules, 1962

Members holding shares under multiple accounts under different status / category and single PAN. may note that, higher of the tax as applicable to the status in which shares held under a PAN will be considered on their entire holding in different accounts.

The documents furnished by the shareholders shall be subject to review and examination by the Company before granting any beneficial rate or NIL rate. The Company/RTA reserves the right to reject the documents in case of any discrepancies or the documents are found to be incomplete.

Members may note that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt, or insufficiency of the aforementioned details/documents from you, an option is available to you to file the return of income as per Income Tax Act, 1961 and claim an appropriate refund, if eligible. No claim shall lie against the Company for such taxes deducted.

Section 199 of the Income Tax Act ('the Act'), read with Rule 37BA of the Income Tax Rules, 1962 ('the Rules') inter-alia states that if the income on which tax has been deducted at source is assessable in the hands of a person other than deductee, credit of the tax deducted at source shall be given to the other person and not to the deductees.

Therefore, in case the shares are held by the member on behalf of any other person, then the deductee shall submit a declaration mentioning the name, address, permanent account number of the person to whom credit is to be given, payment or credit in relation to which credit is to be given and reasons for giving credit to such person. Only after receipt of such declaration, the deductor shall report the tax deduction in the name of the other person and shall issue the certificate for deduction of tax at source in the name of the other person, whose name is mentioned in the declaration. The shareholders are requested to submit the necessary documents within 4" October,

Further, the Company will withhold taxes as per the stipulated tax laws, prevailing at the time of deduction of TDS.

In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Company and also provide the Company with all information/documents and co-operation in any appellate proceedings.

This Communication is not to be treated as an advice from the Company or its affiliates or Registrars KFin Technologies Limited. Members should obtain the tax advice related to their tax matters from a tax professional. For Jupiter Wagons Limited

Date: 20.09.2024 Place: Kolkata

Ritesh Kumar Singh Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F9722



एपीस इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कायलिय: १८/३२, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली -११०००८ दुरभाष: 011-4320 6650, फैक्स: 011-2571 3631; ई-मेल: mail@apisindia.com वेवसाइट: www.apisindia.com; सीआईएन: L51900DL1983PLC164048

(अनअंकेक्षित)

8,732,32

(अनअंकेक्षित)

7,898.36

16.20

(अंकेक्षित)

31,720.22

30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अनअंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का उद्घरण (रु लाखों में) 30.06.2023 31.03.2024 30.06.2024

क्र. सं.	विवरण	
1	प्रचालमें से कुल आय (शृद्ध)	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट और/या असाध	
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों और/र के बाद)	
127		

मूल और तरल आय प्रति शेयर (रूपये में)

2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	551.68	617.18	2,717.25
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट मदों और/या असाधारण मदों के बाद)	551.68	617.18	2,717.25
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ विशिष्ट मदों और/या असाधारण मदों के बाद)	391.03	437.40	2,163.32
5	कुल व्यापक आय [कर के बाद की अवधि के लिए लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल]	526.59	892.42	3,228.38
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रूपये)	551.01	551.01	551,01
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	14,231.19
8	आय प्रति शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य १०/- रूपये) (वार्षिकीकृत नहीं)			

दिनांक: २० सितंबर २०२४

स्थानः नई दिल्ली

- उपरोक्त अनअंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 20 सितंबर २०२४ को आयोजित अपनी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया।
- 2 सेबी (विनियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विनियम ३३ के अनुसार, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही के लिए (कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन) अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- 3 उपरोक्त 30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का उद्घरण है, जिसे सेबी (विनियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया गया है। कंपनी के 30 जून २०२४ को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com पर उपलब्ध हैं।

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी के प्रमुख आंकडे इस प्रकार हैं:

(रु लाखों में)

58.59

Q	समाप्त तिमा	समाप्त वर्ष		
विवरण	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	
प्रचालनो से कुल आय (शुद्ध)	8,732.32	7,898.36	31,785.96	
कर से पूर्व लाभ	551.68	617.38	2,785.65	
कर के बाद लाभ	391.03	437.60	2,231.72	
अन्य व्यापक आय			1 34	
कुल व्यापक आय	391.03	437.60	2,203.43	
गिळली विसारी और समाध्य वर्ष के शांकरों की वर्जन	एवं अवधि के वर्गीकरण की गरि करते :	के जिए जरां भारतभा	क से ग्राम्बर्गमितिक	

ापछला तिमाहा आर समाप्त वर्ष के आकड़ा का वर्तमान अवाध के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जहां आवश्यक ही, पुनर्समूहित/ पनर्व्यवस्थित किया गया है।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते एपीस इंडिया लिमिटेड

> > हास्ता/-प्रेम आनंद (अध्यक्ष एवं निदेशक) DIN: 00951873

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA, INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")



SAJ HOTELS LIMITED



QR Code to view the Prospectus)

(Formerly known as Saj Hotels Private Limited) Corporate Identification Number: U55101PN1981PLC023814

Saj Hotels Limited was, originally, incorporated as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated February 4, 1981 bearing Corporate Identity no. U55101PN1981PTC023814 issued by Registrar of Companies, Maharashtra at Bombay. Subsequently our Company was converted from a private limited company to Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting by the shareholders of the Company on October 5, 2023 and the name of our Company was changed to 'Saj Hotels Limited'. A fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on November 3, 2023 by the Registrar of Companies, Pune bearing Corporate Identity Number U55101PN1981PLC023814

Registered Office: Saj on the Mountains, Survey number 18, Mahabaleshwar Panchgani Road, Mahabaleshwar, Satara, Maharashtra - 412806.

Tel No: 022-62875252 / 022-26203434 | Email Id: secretarial@sajresort.in | Website: www.sajresorts.com Contact Person: Harsha Darshan Mandora, Company Secretary and Compliance Officer PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE: MR. RAHUL MAGANLAL TIMBADIA, MR. KARTIK MAGANLAL TIMBADIA

AND MR. KARNA KARTIK TIMBADIA

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 42,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SAJ HOTELS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 65/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹55/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 2,762.50 LAKHS (THE "ISSUE"), OF WHICH 2,14,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹139.10 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 40.36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹65/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹2.623.40 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.36% AND 25.03% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 289 OF THIS PROSPECTUS

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹65.00/- PER EQUITY SHARE THE ISSUE PRICE IS 6.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH FIXED PRICE PROCESS. IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(8) OF SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 300 OF THE PROSPECTUS. A COPY OF THE PROSPECTUS HAS BEEN DELIVERED FOR REGISTRATION TO THE REGISTRAR OF COMPANIES, PUNE AS REQUIRED UNDER SECTION 26 OF THE COMPANIES ACT. 2013.

FIXED PRICE ISSUE AT ₹65/- PER EQUITY SHARE APPLICATION CAN BE MADE FOR A MINIMUM LOT OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES LOTS OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

OPENS ON SEPTEMBER 27, 2024, FRIDAY CLOSES ON OCTOBER 01, 2024, TUESDAY

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Mandatory in Public Issues. No cheque will be accepted.

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply Blocking the fund in the Bank Account. For details, check Section on ASBA below.

UPI Now available in ASBA for Retail Investors ("RII')**

Retail Individual Applicants also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account

Investors are required to ensure that the Bank Account used for the application is linked to their PAN. UPI - Now available in ASBA for Retail Individual Applicants applying Registered Brokers, DPs, & RTAs.

List Of Banks Supporting UPI is Also available on SEBI at www.sebi.gov.in ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors (if any). UPI may be availed by RIIs. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and Abridged Prospectus and also please refer to the Chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 300 of the Prospectus. The process is

also available on the website of AIBI and NSE Emerge in the General information Document. ASBA Forms can be downloaded from the website of NSE Emerge and can be obtained from the list of banks that is displaying on website of

. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended ***The Application Forms which do not have the details of the Applicant's Depository Account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIIs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the Stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the Application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting Alfotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on Allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS (SCSB'S) FOR THE SAME, FURTHER PURSUANT TO CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 DATED JUNE 28, 2019 & CIRCULAR NO. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 DATED NOVEMBER 8, 2019 FOR IMPLEMETION OF PHASE III FOR UPI FACILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM DECEMBER 01, 2023. ALL POTENTIAL APPLICANTS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANDATORILY UTILIZE THE APPLICATION SUPPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNT OR CORRESPONDING UPI ID (IN CASE OF RIIS), IN WHICH THE APPLICATION AMOUNTS WILL BE BLOCKED BY THE SCSBS OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE, FOR MORE DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO THE CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE NO. 300 OF THE PROSPECTUS, IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING/REFUND THE FUND, OUR COMPANY SHALL PAY THE INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY. RISKS TO INVESTORS

Our Company has incurred losses in the one out of the three previous financial years.

2. Our Company has had negative cash flow in the past and may continue to have negative cash flows in the future.

3. Our Company requires significant amount of working capital for a continued growth. Our inability to meet our working capital requirements may have an adverse effect on our results of operations, financial condition and cash flows,

4. Our Company, promoters of the Company, directors of the Company and our group companies are parties to certain litigation and claims. These legal proceedings are pending at different levels of adjudication before the respective courts and regulatory authorities. Any adverse decision may make us or our promoters/directors or group companies liable to liabilities/penalties and may adversely affect our reputation, business, and financial status.

5. A parcel of land on which one of our resort property is constructed (Saj in the Forest, Pench) is taken on leasehold basis under a Joint Venture arrangement. If we are unable to comply with the terms of such arrangement, our

business, results of operations, financial condition and cash flows may be adversely affected. 6. One of our properties is situated in proximity to the Pench National Park, may be subject to regulatory as well as government restrictions which might adversely affect our business and financial position.

7. Our Company has entered into long-term lease deeds with various third parties to receive lease rentals/ license fee for the resort/ restaurant properties. If these agreements are terminated or not renewed, our business, results of operations, financial condition and cash flows may be adversely affected.

8. A portion of our resort bookings originate from online travel agents and intermediaries. In the event such companies continue to gain market share compared to our direct booking channels or our competitors are able to negotiate more favourable terms with such online travel agents and intermediaries, our business and results of operations may be adversely affected.

9. The Merchant Banker associated with the offer has handled only two public issues in past and it was not closed below the issue price on listing date. 10. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

> Name of the Promoter & Promoter Group Number of Equity Shares of Face Value ₹ 10/- each held Average Cost of Acquisition per Share (In ₹) Rahul Maganlal Timbadia 9.364.000 2.00 Kartik Maganlal Timbadia 312,000 56.09 Karna Kartik Timbadia 312,000 56.09

11. The weighted average cost of acquisition of all shares transacted in last one year, last eighteen months, and last three years preceding the date of the prospectus is as follows:

Period	Weighted Average cost of acquisition (₹)
Last 1 year	NI NI
Last 18 months	8.28
Last 3 year	8.28

LISTING: The Equity Shares Offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE Emerge"), in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as

amended from time to time, our Company has received an In-Principle approval letter bearing reference number "NSE/LIST/3903" dated August 14, 2024, from NSE Emerge for using its name in the Prospectus for listing of our shares

on the SME Platform of NSE Emerge. For the Purpose of this Issue, SME Platform of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE Emerge"), shall be the Designated Stock Exchange. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Prospectus was furnished to SEBI in Soft Copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, Investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 282 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE EMERGE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify

the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE' beginning on page 283 of the Prospectus. RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first public issue of Equity Shares of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each and the Issue Price is 65/- per Equity Share, which is 6.5 times of the face value of the Equity Shares. The Issue Price determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in chapter titled as "Basis of the Issue Price" beginning on page number 97 of the Prospectus, should not be taken to be indicative of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page number 22 of this Prospectus.

CREDIT RATING: This being the issue of Equity Shares, No Credit Rating is required. DEBENTURE TRUSTEES: This being the issue of Equity Shares, the appointment of Debenture Trustee is Not required.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency.

LEAD MANAGER

Address: G-07, Ground Floor, The Summit Business Park,

Andheri Kurla Road. Andheri East. Mumbai - 400 093

BASIS FOR ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by our Company in Consultation with the Lead Manager. The financial data presented in the Chapter titled "Basis of the Issue Price" on page 97 of the Prospectus, are based on our Company's Restated Financial Statements. Investors Should also refer to the section titled "Risk Factors" and Chapter Titled "Summary of Financial Information" on pages 22 and 50 respectively, to get a more informed view before

making the investment decision. ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013 CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For Information on the Main Objects and other objects of our Company, see chapter titled "History and Certain Corporate"

Matterst on page 166 of the Prospectus and Memorandum of Association of our Company is a Material Document for Inspection in relation to the Issue, for further details, see the

chapter titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 360 of the prospectus. LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY AS PER MOA: The liability of the Members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them. AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:

Authorized Capital of the Company is ₹20,00,00,000 consisting of 1,99,90,000 Equity Shares of ₹10/- each and 1,000 Preference Shares of Rs. 100 each. Pre-Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital of the Company is ₹11,87,50,000 consisting of 1,18,75,000 Equity Shares of ₹10/- each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹16.12.50.000 consisting of 1.61.25.000 Equity Shares of ₹10/- each.

for details of the Capital Structure; please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 64 of the prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the Signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: One Equity Shares each by Mr. Chintamani Joglekar, Mr. Suresh Adkar, Mr. Vilas Shrinivas Sane, Mr. Damodar Gadqil aggregating to 4 Equity Shares of ₹ 100/- each.

REGISTRAR TO THE ISSUE

CORPORATE WISDOM CORPWIS ADVISORS PRIVATE LIMITED CIN: U74900MH2014PTC322723 SEBI Regn. No.: INM000012962 Contact Person: Mr. Vishal Kumar Garg	SATELLITE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED CIN - U65990MH1994PTC077057 SEBI Regn. No.: INR000003639 Contact Person: Mr. Michael Monteiro Telephone: 022-28520461/462	Ms. Harsha Darshan Mandora Address: Saj Hotels Limited Office no. 102, 1st Floor, Navkar Plaza, Bajaj Road, Vile Parle (West), Mumbai, Maharashtra - 400056 Contact Number: + 22 6287 5252 E-mail: secretarial@sajresort.in Website: www.sajresorts.com		
Telephone: +91 – 22 – 4972 9990 Email: ipo@corpwis.com	E-mail; service@satellitecorporate.com	Investors can contact our Company Secretary & Compliance Officer, The		
Investors Grievance Email Id: investors@corpwis.com	Investor Grievance Email ID: investorservice@satellitecorporate.com	Lead Manager or The Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-		
Website: www.corpwis.com	Website: www.satellitecorporate.com	issue related problems, such as non-receipt of Letters of Allotment, non-		

Website: www.satellitecorporate.com issue related problems, such as non-receipt of Letters of Allotment, noncredit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-Address: A-106/107 Dattani Plaza, East West Indl. Compound Andheri receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc. Kurla Road, Safed Pool, Sakinaka Mumbai, Maharashtra - 400072 AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the

Issue. Full Copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.corpwis.com and the website of the Issuer Company at www.sairesorts.com. AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms and the copies of the Prospectus can be obtained from the Registered Office of our Company, Lead Manager: Corpwis Advisors Private Limited, Application Forms will also

be available on the website of NSE (www.nseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI. APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in Application Form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of

shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 300 of the

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/ DIL2/CIR/P/2019/50 dated April 3, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/45 dated April 5, 2022, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 April 20, 2022, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2022/75 dated May 30, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor must apply through UPI Mechanism. Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to

them viz. Submission of Application Form with SCSBs/using the facility linked online trading, demat and bank account. For further details, please refer the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 300 of the Prospectus. Sponsor Banker/ Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: ICICI BANK LIMITED All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the prospectus dated September 12, 2024, investors should read the prospectus carefully, including the

section titled "Risk factors" on page 22 of the prospectus before making any investment decision. DISCLAIMER: SAJ HOTELS LIMITED is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus dated September 12, 2024 with the Registrar of Companies, Pune on September 19, 2024. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.corpwis.com and the website of the Issuer Company at www.salresort.com. Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled "Risk Factors" beginning on the page no 22 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only (i) to persons in the United States that are "qualified" institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act in reliance on Rule 144A, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" (as defined in Regulations) in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

> FOR SAJ HOTELS LIMITED ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Karna Kartik Timbadia DIN: 01753308 MANAGING DIRECTOR Sunject Comm

Date: September 20, 2024 Place: Mumbai

financialexp.epapr.in

COMPANY SECRETARY &

COMPLIANCE OFFICER

New Delhi

अमेरिकी केंद्रीय बैंक के रेट कट

ने वैश्विक बाजारों में भरा जोश

तूफानी तेजी के बीच पहली बार 84,544 अंक के पार निकला सेंसेक्स, निफ्टी ने भी बनाया आल टाइम हाई का नया रिकार्ड

शेयर बाजार में तुफानी तेजी ने निवेशकों को किया मालामाल, एक दिन म 6.2 5 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की पूंजी अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई शेयर बाजारों की तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजारों में भी सप्ताह के अंतिम दिन जोरदार तेजी

बंद हुए। बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स ने 1,360 अकों की लंबी छलांग लगाते हुए पहली बार 84,000 के स्तर को पार कर लिया। वहीं, निफटी स्तर का पार कर लिया। वहा, ानफ्टा ने भी 25,800 के ऊपर निकलकर नया ऑलटाइम बनाया। शेयर बाजार में आई जबर्दस्त तेजी की वजह से सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन निवेशकों को भी जबर्दस्त फायदा हुआ और उनकी गुंजी में 6.25 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों की तेजी से प्रभावित भारतीय शेयर बाजारों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स शुक्रवार के दिन हरे निशान में बंद् ु हुए। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे अधिक तेजी रियल्टी, ऑटो, कैपिटल गुड्स और बैकिंग शेयरों में देखने को मिली। बीएसई स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स ं एक फीसदी से अधिक की बढ़त साथ बंद हुए।

22.3 करोड डालर बढ़कर ६८९.५ हुआ विदेशी मुद्रा भंडार

भड़ार में बहुतरा होन से 13 समाप्त सरताह में देश कृत भंडार 22.3 करोड़ डॉलर ब ढ क र 689.5 अरब

पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.25 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 689.24 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से रहा था। रिजल बंक का आर स शुक्रवार को जारी साप्ताहिक ऑकड़े के अनुसार, 13 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 51.5 करोड़ डॉलर की गिरावट लेकर 603.6 अरब डॉल पर आ गया। वहीं, इस अवधि में स्वर्ण भंडार 89.9 करोड़ डॉलर

बतकर 62.9 अरब डॉलर हो गया

देखने को मिली। जिसकी वजह से बीएसई और एनएसई के दोनों बंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हए।

 फेड रेट कट के बाद से अमेरिकी शेयर बाजारों में भी दिखी तेजी बीएसई-एनएसई के

सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए ■ रियल्टी, ऑटो, रियल्टी, आटी, कैपिटल गुड्स व बैकिंग शेयरों में रही

बढ़कर ४७१.९७ लाख करोड़ हुआ बीएसई का मार्केट कैप



कारोबार के अंत में बीएसई संसेक्स 1 359 52 अंक की कारोबार के अंत न, बारनेश्व संवस्तर 1,539,52 अक का तेजी के साथ 84,544,31 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में संस्वेतस 84,694,46 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स, निपटी 375,15 अंक बढ़कर 25,790,95 के स्तर पर बंद हुआ। इसने भी दिन के कारोबार में 25,849,25 का नया उच्चतम स्तर छू लिया। बीएसई में लिस्टेंड कपनियों का कुल मार्केट कैप शुक्रवार को बढ़कर 471.72 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर जा पहुंचा। जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को ४६५.४७ लाख करोड़ रुपये था। इस तरह ु लाख करोड़ रुपये बढ़ा। इसका मतलब है कि एक दिन में

बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप शुक्रवार के दिन करीब 6.25 निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.25 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

सेंसेक्स 30 में 26 शेयर हरे निशान में बंद हुए

बीएसई के बेंचमांके संसेत्स के 30 में से 26 शेयर कारोबार के अंत में हरे निशान में बंद हुए। इसमें महिंदा एंड महिंदा के शेयरों में सबसे अधिक 5.57 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इसके बाद जेएसडब्लू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, लसेन एंड टूबों और भारती एयरटेल के शेयर 2.65 फीसदी से लेकर 3.85 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। शुक्रवार को कारोबार के दौरान संसेवस के सिर्फ 4 शेयर ही गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का शेयर 0.70 फींसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। इसके साथ ही इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेसी सर्विसेज (टीसीएस) और बजाज फाइनेंस के शेयरों में आज के कारोबार के दौरान 0.07 फीसदी से 0.33 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।

के अधिकांश शेयर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुक्रवार के दिन बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही। एक्सचेंज पर कुल ४,०५९ शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इसमें से २,४६८ शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 1,482 शेयर तजा के साथ बंद हुए। वहीं 1,482 शेयरों में गिरावट देखीं गई। जबकि 109 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हए। इसके अलावा २६५ शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया ५२-काराबार क दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ। उधर एनएसई, पर एनएसई पर 2844 शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इनमें 1852 शेयर तेजी के साथ हरे निशान में बंद हए जबिक 932 शेयर गिरावट में बंद हुए। एनएसई के 69 शेयरों में आज के दिन कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। महेंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएडटी, कोल इंडिया एनएसई के टॉप गेनर रहे काल झड़वा एनएसइ क्यू टाव गनर रहा जबकि, ग्रासिम, एबीआईएन, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक और हीरोमोटोकार्प टॉप लूजर रहे हैं।

मुबङ्ग, आरएनएन। भारताय भूजान ते उ० सितंबर को तूफानी तेजी देखने को मिली। बाजार ने ऊंचाई का नया इतिहास बना डाला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने नया शिखर छू लिया। सेंसेक्स जहां फ्हली बार 84,695 अंक के नए उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। जबकि, निफ्टी पहली बार पहुंचा। जबकि, निपटी परार्ली बार 25,849 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उपत्र वाजार के विशेषां के अनुसार शेषर बाजार में आज दिखी तुफानी तीजी की पांच प्रमुख वजारें रही हैं। आइए समझते हैं कि ये पांच वजारें क्या रही, जिनकी वजह से शेषर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल अमारको कदाय बक फडरल रिजर्ब के ऐतिहासिक रेट कट ने पूरी पुनिया के बाजारों में जोश भर दिया है। निवेशकों का सेंटीमेंट इसलिए भी हाई रहा, क्योंकि फेडरल रिजर्ब में आगे भी कटोती के संकेत दिए हैं। इस तेजी की वजह से अमेरिकी बाजार में भी तेजी देखते को मिल रही है। एसएंडपी 500 और डाउ रही है। एसरेडजी 500 और बाउ जोन्म इंडेक्स ने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू हिल्या है। यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी तेजी है। इसकी अगुआई जापन के निकाई-225 इंडेक्स ने की। जापान का कोर कंज्यूसर प्राइस इंडेक्स 2.8 प्रतिशत बढ़ा है, इससे जापान के सेंट्रल केंक की आगामी बैठक में ब्याज रहते जें के 0.25 प्रसिस्दी पर ही

बरकरार रहने की उम्मीद है।

मुंबई, आरएनएन। भारतीय



भारत में भी काफी समय से ब्याज दरें कम करने की मांग की जा रही है। लेकिन रिज़र्व बैंक नू अब तक इस पर चुप्पी साध रखी है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने के फैसले से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दर घटाने का दबाव बढ़ गया है। कई धटान का द्वाव बढ़ गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दरों में कटौती कर सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिव सिंह ने कहा, यह कदम भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट को भी अपनी मॉनिटरी नीतियों में ढील देने का मौका देता है, लेकिन आरबीआई फिलहाल घरेल् अर्थव्यवस्था पर अपना फोर्क्स रखेगा।

एप्पल के आईफोन-16 के लिए लोगों में दिखा जबर्दस्त जुनून, एप्पल स्टोर्स के बाहर सुबह 8 बजे से लगी कतारें

नई दिल्ली, आरएनएन। एप्पल ने भारत में आईफोन 16 सीरीज लॉन्च कर दी भारत में आईफोन 16 सीरिंग लॉन कर सें है। एप्पल के इस आईफोन के प्रति हैं राप्पल में लोगों में जबरदस्त उत्ताह देखने अ मिला है। मुंबर्ड और नई दिल्ली के प्रमुख स्टोसं के बाहर सुबह से ही लंबी कतारों लग गई। जबकि हिक्का-कॉमसं एंट्रफोर्ग केंसे हिलाबिट और बेंबी नाउने कुछ है। मिनटी में डिलाबिर का बादा कर ग्राहकों का ध्याप और अध्याप और अध्याप और अध्याप अध्याप और अध्याप अध्या

दर्शाता है. जहां कंपनी अब स्थानीय मैन्यफैक्चरिंग पर जोर दे रही दशाता, है, जहां करना अब स्थानाय मन्युनक्यारों वर जार दें रहा है और भरत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाता को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय उपभोक्ता भी जबर्दस्त तरीके से एप्पल के उत्पादों का स्वागत कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे से ही एप्पल के प्रमुख स्टोसें पर बिकी शुरू होते ही ग्राहकों की भीड़



विवक–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने कहा नहीं करना पड़ेगा इंतजार, कुछ मिनटों में पाए आईफोन–16

पहली बार विषय - कॉमर्स स्टिटफॉर्म्स उसे बिलीकट और बी बी जाउं ने एप्या के टिटकर के माथ साईसरी ही है, ताकि ग्राहक अपने घर बेठे आईफोन 16 मंगल सकें, वो भी लिएं कुछ मिनटों में। ब्लिकिट के सीईओ अल्बंदर दीन्डसा ने कहा कि यह सेवा दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुण और बेंगलुक में लींच के दिन ही शुरू की गई। इसके तहत ग्राहकों को न सिफ तेज डिलीवरी दी गई, बलिक कुछ चुनिंदा केंडिट काईस और इंप्पाआई विकट्यों पर घुट भी दी गई है, जिससे आईफोन 16 को और भी सुलभ बनाया गया है। ब्लिकिट और बी बी नाउ ने अपनी डिलीवरी स्वित्तर के तज़ बनाने के लिए माइक्रो-प्रुलिफलमेंट सेटर्स में स्टॉक रखा है और जल्द ही इसे देश के अन्य क्षेत्री तक बढ़ाने की योज

उमड़ पड़ी। मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और दिल्ली के सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में लोग रात से ही सेलंबर सिटीवॉब मॉल में लोग रात से से कतार में खड़े थे। मुंबई में एक एएमल उत्साही, उज्जवल शाह, 21 घंटे तक कतार में खड़े रहे ताकि के सबसे एक्टे आईफोन 16 भी मैक्स खरीद सकें। उन्होंने बताया कि मुंबई में फोन के लिए माहिल बेहद इलीवट्टक था। इसी तहर दिख़ी में भी भीड़ उन्मही, जब सुत्त से आए अक्षय ने बताया कि व फोन के जुम

आए अक्षय ने बतावा कि वे फोन के जूम कैमरा और आईओप्टर 18 से बेहद उत्पाहित थे। आईफोन 16 की कीमत 79,900 से सुरू होती है। एक्प पी इसके माणे दाम के बावजुद लोग बड़ी संख्या में इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इस बार एप्पल के फोन खरीदने के तरीके में भी एक बड़ा बदलावा आया है।

आईफोन 16 का यह लॉन्च इसलिए भी ऐतिहासिक जाइकान 10 की वह सान्य इसारार ना रासहासक है क्योंकि यह पहली बार है जब 'मेड इन इंडिया' आईफोन्स को वैश्विक बाजार में लॉन्च के कुछ ही आईफोर्न के पायक कराया जा रहा है। एप्पल के प्रमुख कॉन्ट्रेक्ट मैन्युफेंक्टरर फॉक्सकॉर्न ने भारत में पहले ही आईफोन 16 का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह कदम एप्पल की चीन से अपनी ाया है। यह क्या स्थार का पान से अपना मैन्युफैक्विराग बेस को हटाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला के मुद्दों ने और तेज कर दिया है। 2025 ूबरा के पुद्ध ने जार राज कर त्रवेदा हो 2023 तक एप्पल अपने कुलआईफोन उत्पादन का 25 फीसदी भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। भारत की बढ़ती मध्यम वर्गीय जनसंख्या और ईएमआई योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एएल की भारत में बिकी तेजी से बद रही है। 2030 तक भारत में एप्पल की बिक्री 33 अरब तक पहुंच सकती है, जो भारत में बढ़ते उपभोक्ता बाजार की संभावनाओं को दर्शाती है।

वैश्वक लांच के कुछ दिन बाद ही

भारत में उपलब्ध कराया आईफोन

मिडकैप और स्माल कैप शेयरों ने की जोरदार वापसी

निघटी बैंक इंडेंवरा लगातार सातवें दिन बद्धत के साथ काराबोर कर रहा है। दिन के समय 53,357 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंकों के शेयरों में 1–2 प्रतिशत की तेजी आई। सितंबर में अब तक यह इंडेक्स 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ चका है। मिडकैप और तिवास ने अब प्रोध पढ़ उसने ने प्राप्तत के प्रमुक्ता करान्य पढ़ पुछी होने कि उसने पहने सर्मातिक शेरारों ने प्रिप्तत कुछ दिनों की मुनाफारसूरी के बाद सादाह के असि पहने जोरदार तरीके से वापसी की। शुक्रमार के दिन फारोबार के दौरान बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों इंडेक्स तेजी में बैद हुए हैं। इसके पहले प्रिफ्त 3 दिनों तक इनमें लगातार मिगवद आई थी। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर घटाने से स्लोबल मार्केट में

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

त्योहारों से पहले झटकाः चार दिन में ज्रुरी वस्तुओं के दाम 12 फीसदी तक बढे

नई दिल्ली, आरएनएन। त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले ही आम आदमी को झटका लगना शुरू हो गया है। पिछले चार दिनों में ज़रूरी वस्तुओं खासकर खाने के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। 15 सितंबर से लेकर अब तक इनकी कीमतें 12 फीसदी तक बढ़ गई हैं। ऐसे में आने वाले फांसदा तक बढ़ गड़ है। एस म आन वाल समय में लोगों को इन पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि, बुधवार को ही खांडा सचिव संजीव चोपड़ा ने दावा किया कि त्योहारी सीजन में जरूरी खांडा वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इनके पर्याप्त भंडार है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, उनके बयान के एक दिन बाद ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े इसे आगे आने वाले समय में झूटा साबित कर सकते हैं। मूंगफली तेल की कीमत पिछले चार दिनों में 180 रुपये से बढ़कर 186 रुपये लीटर हो गई है। यानी तीन फीसदी की तेजी आई है। सरसो का तेल 142 रुपये से महंगा होकर 148 रुपये हो गया है यानी चार फीसदी की वृद्धि आई है। गया ह याना चार फोस्सदा का बृद्ध आह हा कन्मसति तेल का भाव 122 से बब्दुकर 126 रुपये लीटर हो गया है। हालांकि, यह सभी वस्तुओं के सरकारी भाव हैं पर खुदरा बाजा में कीमतें इससे भी ज्वादा हो सकती हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, खादा तेलों के दाम 8 फीससी

तक बढ़े हैं। 15 सितंबर को सोया तेल की कीमत 118 रुपये थी जो 19 सितंबर को 8 फीसदी बढकर 126 रुपये लीटर हो गई।

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

	मांग सूचना दिनांक एवं राशि			
क्षण साता संख्या तप्पण्यमं सीएवएवथ००००१४,267 (पुराना) ०३००००५५५४ (राज्या) तस्परपद्मं सीएवएव००००७४ (पुराना) ०३००००५५५४,६५७ (राज्या) (रिव्हाक्षा सारावा) रसर्व श्री कृष्णा ऑटोमोवाहरूस (इसके राज्या) माध्यस श्री (उमारकती) अनुराग शिवारी, माध्यस श्री (उमारकती) अनुराग शिवारी,	रु. 7073709	पूर्णि/भारत बेरकस 2780 वर्ग प्रीट 128.38 का मी रिटा, 121.50 वर्ग पीटा, 121.50 वर्ग		
रोक ऋगकर्ता रात्रि का सीतीसीएन को भगतान कर	ते में भागातल जनते है :	नो जी बीजीपाल शरीहर जांगति के विकास जारोक काराज की शारा 12 (4) के शंतर्यंत ह		

🔊 कार्यालय नगरपालिका परिषद गोटेगांव, जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.) ail: cmogotegaon@mpurban.gov.in)

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

₹.	टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की	निविदा प्रपत्र	निविदा की
豖.	जारी दिनांक		समयावधि	का मूल्य एवं	अतिम तिथि
			एवं लागत	ईएमडी	
1	2	3	4	5	6
1.	2024 UAD 364287 1	हरदौल वार्ड में डॉ. भद्र के सामने से गंगा नगर	03 माह	2000.00	22.10.2024
ı	19.09.2024	कालोनी के गेट के सामने तक आर.सी.सी नाली	1389933.00	10425.00	
ı		निर्माण कार्य ।			
1.	2024_UAD_364289_1	आजाद वार्ड में सांकल रोड से पाठक जी के	03 माह	2000.00	22.10.2024
ı	19.09.2024	मकान तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली	1146782.00	8600.00	
ı		निर्माण कार्य ।			

नोट - निविदा से सर्वधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://www.mptenders.gov.in की वेबसाईंश पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मस्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद लोक निर्माण शाखा नगर पालिका परिषद, गोटेगांव गोटेगांव गोटेगांव

सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला, तीन फीसदी टूटे स्पाइसजेट के शेयर

मुंबई, आरएनएन। निजी त्र की विमानन कंपनी





इसन 74 प्रांतरात का तजा दखा हा बता है कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 14 अगस्त को स्पाइसजेंट को 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल 16 अगस्त तक बंद करने और उन्हें लेससें- टीम फ्रांस



आ गया है। पिछले 3 महीनों में शेयर 20 प्रतिशत मजबूत हुआ है। एक साल के अंदर इसने 74 प्रतिशत की तेजी देखी है। बता दें स्पाइसजेट का शेयर सुबह मामूली बढ़त के 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस साथ बीएसई पर 68.95 रुपये पर खुला। को सौंपने का आदेश दिया था।





































































































